



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 521 राँची, सोमवार

21 मई, 2018 (ई०)

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना
9 मई, 2018

संख्या- TB/STCS-356/2012- 92(HSN)-स्वा०— स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- 28015/2/2012-टी०बी० दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा सभी क्षय रोगियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने, क्षय रोग का नियंत्रण करने तथा इसकी रोकथाम के लिए उपाय विनिर्दिष्ट किया गया है ।

ज्ञातव्य हो कि क्षय रोग रोधी का अनुपयुक्त निदान और अनियमित अथवा अपूर्ण उपचार से जटिलताएँ हो सकती हैं, रोग फैल सकता है और औषध प्रतिरोधी क्षय रोग विकसित हो सकता है । रोगियों और उनके जानकारों में उपर्युक्त क्षय रोग निदान, सुनिश्चित प्रबंधन, क्षय रोग के फैलाव

और विकास की समस्या पर ध्यान देने के लिए सभी क्षय रोगियों के बारे में सूचना एकत्र किया जाना आवश्यक है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-28015/2/2012-टी०बी० दिनांक 16 मार्च, 2018 को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।
